

December 16, 2020

Asst. Vice President, Listing Deptt., National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051 Scrip Code: HEROMOTOCO The Secretary, **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificate in lieu of original share certificate that is reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificate will be issued to the concerned shareholders in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited

(Dhiraj Kapoor) General Manager - Secretarial

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020

FINANCIAL EXPRE	SS		CC	OMP/	ANIE	S 5
FINANCIAL EXPRE Chemicals Limited 2076238 Itta, Hyderabad 500082, Telangana ss: investors@nagarjunagroup.com; lo. 040-23354660 HEMICALS LIMITED that the 14* Annual tesday, December 30, 2020 through Video pecified in the Notice. rs at a common venue in compliance with r 14/2020, dated April 08, 2020, Circular Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ been sent to the members electronically to ransmission of the Notice of 14* AGM and 20, afertilizers.com, on the website of CDSL eindia.com and www.nseindia.com. sclosure Requirements) Regulations, 2015 rar of Members and Share Transfer Books 300 (both days inclusive) for the purpose of mpanies (Management and Administration) of India (Listing Obligations and Disclosure the Company is providing remote e-voting	Here Puel Membe Ltd. ('Cc of which receive the Cor original Folio I HML003 Any pe mentior marked at sec publicat caution	Hero MotoCorp Limited Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 On Stant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 Cin: L35911DL1984PLC017354 Phone: 011-4604420 Fax: 011-46044399 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com Website: www.heromotocorp.com CONTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES So of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp prompany jare hereby informed that the Original Share Certificate, details a regiven hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not and that pursuant to request received from concerned shareholders, papary intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said Share Certificate (Face Value Rs.2/-) in their favour: No Shareholders Face Distinctive Nos. Certificate No. of No. of Shares 1128 SHAILENDRA Rs.2/- 44695846 - 44696475 508082 630 varMa corn having objections to issue of duplicate Share Certificate, as ed herein above, may submit the same, in writing, with the Company to the Secretarial Department' at its Registered Office and an email etarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of ion of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby ad against dealing in the above mentioned Share Certificate. Image: Secretarial Department' at its Registered Office Protocorp.td. Sd/- Moto Cocpp. Ldd.	Act, 1956 having i Mathura Road, Far (The Amalgamate shall collectively, here A Joint Company Section 52 and Sec framed under the N order sanctioning 27th October, 202 Company Petition Bench of the Hon'l Bench, Corporate I Madhya Marg, Chai Any person desin Company Petitioner Company Petitioner Petitioner Compar his / her intention, s her name and addr Petitioner Compar his / her intention s her name and addr Petitioner Compar his / her nam	its registered of idabad, Haryan, (Amalgamat d Company an pinafterbereferree NOTICE OF Petition under ction 66 of the C lational Compar the Scheme of 20 by the Petiti is fixed for fina- ole National Con Bhawan, Plot Nr ndigarh - 160019 ous of support should send to 1 ress, so as to rea- nise at the addr signed by him / 1 ress, so as to rea- nises not later th g of the Joint O a Joint Company F y person requir s for the same. Advocat 15, 2020	ffice at Plot No. a-121003 ed Company / id the Amalgari doasthe Petition PETITION Sections 230 oompanies Act, 2 ny Law Tribunal I Arrangement wi ioner Compani Il hearing before mpany Law Trib o. 4-B, Ground F 9 ("NCLT"), on 28 ling or opposin the NCLT and th ess mentioned I hear or his / her an ach the NCLT and the NCLT and th ess mentioned I hear or his / her an ach the NCLT and the NCLT and th ess mentioned I hear or his / her an ach the NCLT and the ss mentioned I hear or his / her an ach the NCLT and the ss mentioned I hear or his / her an ach the NCLT and the ss mentioned I hear or his / her an ach the State ach the ss Company Petitik Petition, the gro furnished with ss Petition will be ring the same o	9A, Sector-27/ Petitioner No. 1 hating Companie er Companies.) to 232 read wi 013 and the rule Rules, 2016 for a vas presented c es and the Joi e the Chandigar unal, Chandigar iloor, Sector-271 th January, 2021 g the said Joi e Advocate of th palow, a notice dvocate, with his d the Advocate of by the said Joi e Advocate of th palow, a notice dvocate, with his d the Advocate is before the da in. Where he/st unds of oppositio uch notice. furnished by th n payment of th
orm of Central Depository Services Limited otice to the 14" AGM. terialized form, as on December 23, 2020, he paid up share capital of the Company as attending the AGM through VC is available at 10:00 A.M M e it subsequently. GM Notice, but on or before the cut-off date		Correction	Private Road, T.Nagar, C 008PTC068589 ebsite: www.Ozor year ended I d (Ind-AS) (Pursua	Limite Chennai 600 0 ^o negroup.com March 31, 2 int to Regulation	d 17. 2 019 under n 52(8)read with	Ind AS
equest to the Company by mentioning their ly one mode of voting i.e., either remote e- roting may also attend the meeting but shall and the vote cast through remote e-voting	SI. No.	Particulars	Stand For the Year ended March 31, 2019	For the Year ended March 31, 2018	Conso For the Year ended March 31, 2019	lidated For the Year ended March 31, 2018
er of Beneficial Owners maintained by the tote e-voting as well as voting in the AGM. 84), Practicing Company Secretaries, has e-voting process in a fair and transparent ed on the website of the Company and also xchange of India Limited, where the shares in the remote e-voting. In case of queries or requently Asked Questions (FAQ's) and tact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL at a Services Cell at 040-23358405 or write to ted to provide their email addresses for d below: oup.com with the following details:	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12	Total Income from Operations. Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) Other comprehensive income (net of tax) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Net Worth Debt Capital Outstanding Redeemable Preference shares Debt Equity Ratio) -26,03,32,083 -19,35,30,831	(Audited) 29,84,46,421 -2,60,30,133 -2,70,56,657 -2,00,93,177 5,00,00,000 1,61,273 3,00,68,096 1,66,21,25,993 22,00,00,000 41,43	-25,02,79,197 -25,02,79,197 -18,34,84,389 -18,34,84,389 5,00,00,000 -6,31,55,371 -19,66,39,760	- -4,68,82,430 5,00,00,000 -1,62,72,941 -1,31,55,371 1,66,21,25,993
	13	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted Capital Redemption Reserve	-38.71 -7.17	-4.02 -0.74	-36.70 -6.80	-9.38 -1.74
and Bank details in your demat account. ERTILIZERS AND CHEMICALS LIMITED Sd/- K Rahul Raju Managing Director	15 16 17 Note	Debenture Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio	1,61,273 0.17 0.17	1,61,273 0.90 0.90	1,61,273 0.20 0.20	1,61,273 0.80 0.80
ndia vide Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ bank details are unavailable with Registrar ngly all the shareholders are requested to issbook showing name of account holder at in dated June 8, 2018 notified SEBI (Listing 18 wherein it mandated that, except in case acurties shall not be processed unless the are requested to take note of the same. <u>otection Fund (IEPF):</u> The Company has in Education and Protection Fund (IEPF) in ts whose shares, unclaimed dividend, etc. e shares or apply for refund by making an is with requisite fee as decided by the IEPF in in a financial year as per the IEPF Rules. nafertilizers.com.	2	The above audited financial results for the year ended March 31, 20 Diligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and hav The statement has been prepared in accordance with the companies section 133 of the companies Act, 2013 and other recognised based or ND AS 115 from 1st April 2018 and revenues are recognised based or Ratios: a) Debt Equity Ratio = Total Secured and Unsecured Long term and s where shareholders's fund = Equity Share Capital + reserves and tax / Int b) Debt Service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest service Coverage ratio = Earnings before interest and tax / Int c) Interest servi	re been reviewed and (Indian Accounting in thing practices and p in the principles laid do short term borrowing: turplus. terest Expenses. interest expenses fied, wherever neces	d approved by the Standards) Rule: olicies to the exti own in INDAS 11 s including currei ssary to conform for	Board of Directo s, 2015 (Ind AS) ; ent applicable. Co 5. nt maturities)/ shi to the classification r Ozone Homes Vasudevan Sat Direc DIN: 000	rs. prescribed under pmpany adopted areholder's fund, on adopted in the Private Limited hyamoorthy tor

व्यापार

e

आईआर

कार्य के ।

लास्टिक

बोतल क निविदा-

यह निविव

www.tei

शुद्धिपत्र,

www.te कार्याल

Her

आम जनत

किया जात मिले हैं / 1

पक्ष में मूल इरादा रखर्त

फोलिय

HML003

किसी भी

प्रकाशन व

कंपनी के इस बीच, प

जाता है।

स्थानः दिनांकः

किंपनी (नि एक से दूस परिवर्तन के केन्द्र सर कंपनी अधिनि कंपनी (निगम नियम (5) वे आईआर एप्पै पंजीकृत काय 110027 में है एतदुद्वारा आ राजधानी क्षेत्र पंजीकृत काय सक्षम बनाने ह आमसभा में मेमोरेंडम ऑ <mark>નંપની </mark>અધિનિ केन्द्र सरकार कंपनी के पं यदि किसी व्य पोर्टल (ww

दाखिल करें अ आवेदक कंपन्

प्रकाशन की

प्रकृति तथा अ शपथ पत्र द्व (उत्तरी क्षेत्र)

किये

नियक्ति

ह से घटी

बचत

आमदनी को लेकर उम्मीद और कि मार्च तक बचत की स्थिति के ाडी आकलन के लिए किया गया है। भोक्ता सर्वे पर देश के 302 जिलों ने और से करीब 44,000 प्रतिक्रियाएं ो की मिलीं। इसमें 62 फीसद पुरुष पनी और 38 फीसद महिलाएं शामिल ते में हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से ट से

ए हैं। 55 फीसद पहली श्रेणी के शहरों से हैं। 26 फीसद दूसरी श्रेणी र तीसरी व चौथी श्रेणी के शहरों या ग्रामीण

र्वों के अनुसार करीब 50 फीसद लोगों ने अगले चार महीनों के दौरान विवेकाधीन त्तियां खरीदने पर खर्च करेंगे। करीब 10 का कहना था कि अगले चार महीनों में धीन खरीद पर 50,000 रुपए से अधिक योजना है।

ह में शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं i होगा भारत : अंबानी

5 दिसंबर (भाषा)।

सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने हो कहा कि भारत अगले दो दशकों में शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो

केसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के साथ त में कहा कि भारत का मध्य वर्ग, जो देश रेवारों का करीब 50 फीसद है, हर साल र फीसद की दर से बढ़ेगा। रिलायंस प्रमुख अंबानी ने कहा- मेरा मानना है कि दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष तीन ाओं में होगा। इससे भी अहम बात यह है 5 प्रमुख डिजिटल समाज बन जाएगा।

त्र बी क घोषणा
। अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) ह विनियम 12 के अधीन]
नमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ
फ्लो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
107
र ऑफ कंपनीज, दिल्ली
9DL2006PTC157198
कार्यालयः केएच –406, ग्राउंड फ्लोर, ए ब्लॉक, ३. महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110037
20
न आदेश 05 नवंबर 2020 को माननीय एनसीएलटी द्वारा
ग्या (आदेश की प्रति 12 दिसंबर, 2020 को प्राप्त हुई)
गुप्ता
प्रॉई पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP N00982-C01/ 18/10354
-4ई / 135, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
ईडी : sanjay@sgaindia.in
न्सॉल्वेसी रिजॉल्यूशन एंड वैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड
गईलाइन एपिटोम, किरोल रोड, जॉली जिमखाना के पास,
त्र बेरट, मुंबई – 400086

बी : cirp.stockflow@gmail.com 121

धि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V ने **06 नवंबर 2020** को करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति 12 दिसबर, 2020

.

शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरे

मुंबई, 15 दिसंबर (भाषा)।

वैश्विक बाजारों के मिले-जुले रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार मंगलवार को वित्त और धातु कंपनियों के शेयरों में लिवाली से शुरुआती गिरावट से उबर गए और कारोबार की समाप्ति पर मामूली बढ़त के साथ नए उच्च स्तर पर बंद हुए। वित्तीय और धातु कंपनियों के शेयरों में लाभ से एफएमसीजी और चुनिंदा बैंकों के शेयरों में मुनाफावसूली की भरपाई हो गई और बाजार लाभ के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि रुपए में गिरावट से बाजार धारणा प्रभावित हुई, लेकिन विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से निवेशकों का उत्साह बढ़ा।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक शुरुआती नुकसान से उबरकर अंत में 9.71 अंक यानी 0.02 फीसद की बढ़त के साथ 46,263.17 अंक पर बंद हुआ। यह इसका अब तक का सर्वकालिक रेकॉर्ड उच्च स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 9.70 अंक यानी 0.05 फीसद के लाभ से 13,567.85 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ।

सूचकांक में शामिल कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर सबसे अधिक 4.69 फीसद चढ़ गया।

इंडिय									
	न रेलवे केत्	र्रिंग ए	ण्ड दूरिज़्म कॉरपो र का जयम - मिनी रल)	रेशन लि	मिटेड	प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)			
	ी आमंत्रित क	सीआईएन	HL74899DL1999G01161707			इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) के अंतर्गत एक वैज्ञानिक संस्था है।यह संस्था निम्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित करती है-			
	No. Contraction of the second		र्बआरपी अनमलन के लि	ए अन्य सोतों	से स्क्रीय	the second se			
क्षेत्र के अनुसार रेलवे परिसरों या ईआरपी अनुपालन के लिए अन्य सोतों से स्क्रैप ह बोतल एवं अन्य संबंधित प्लास्टिक सामग्री के संग्रहण के लिए एजेंसियों की हेन जरूरी हूँ निविदा (ज. 2020 / आईआएकीटीजी / ईयारपी / योगन प्लास्टिक						निदेशक (वित्त)			
हेतु खुली ई–निविदा (सं. 2020/आईआरसीटीसी/ईआरपी/ओपन प्लास्टिक क्लेक्शन)।						पे मैट्रिक्स लेवल – लेवल 13-ए (रु. 131100-216600)			
ञ्चनवान) । -पूर्व बैठक: 23.12.2020, जमा करने की अंतिम तिथि: 30.12.2020 को 15.00 बजे तक ।					बजे तक ।	आयु सीमा – 50 वर्ष (नियमों के अनुसार छूट)			
वेदा दस्तावेज केवल http://www.tenderwizard.com/IRCTC पर जमा⁄प्राप्त						🛛 आवेदन की अंतिम तिथि- 8 जनवरी 2021; नियुक्ति स्थल — पुणे			
	कते हैं। यि /izard.com/IR			vw.irctc.co	om या	इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत अधिसूचना/जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए			
/ परिशि	ष्ट, यदि कोइ	होगा,	तो उसे केवल 🗤	ww.irctc.co	om एवं	सी-डेक वेबसाइट <u>www.cdac.in</u> के 'careers (कैरियर्स)' पेज पर जा सकते हैं। ध्यान यें- इस संबंध में अगर कोई परिशिष्ट/भावी संचार होगा, तो उसे क्रेवल सी-डैक की			
And a second second second	And the state of the second state of the second	A CONTRACTOR OF A CONTRACT	प्रकाशित किया जाएगा ।			वेबसाइट पर ही अधिसूचित/प्रकाशित किया जाएगा।			
लय पता नई	आइआरसीटीसी वि दिल्ली—110001, प	गुमदञ, ११ जनः ०११—	वां तल, बी—148, स्टेट्समैन ह 23311263—64, फॅक्स: 011.3	ाउस, बाराखम्ब 23311259	। राड,	राष्ट्र विकास			
		-02	<u> </u>			के लिए			
	ग्रंगेकन कप		मोटोकॉर्प लिमिते ग्रेन्ड प्लाजा, प्लॉट नं. २,			सी-डैक से जुड़ें।			
•	पञ्चाकृत कार व	ालचः द संत कुंज	प्रश्व प्लाजा, प्लाट न. 2, - फेस-॥, नई दिल्ली - 1 84PLC017354 फोन:	10070	tis,	सीडेक			
ro	CIN: L35 फैक्स: 011-46	044399	इमेलः secretarialho@	cheromotoc	orp.com				
_	र घोसर मगण्ण		ः www.heromotocorp. करने के लिए सार्वव	A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE		्राण्ड अन्य ति कार्योलय- सी-डेक इनोवेशन पार्क 34, वी/।, पंचवटी, पाषाण, पूणे — <i>41 1008</i>			
-		Contraction of the local diversion of	किरन का लए सावज मिटेड ('कंपनी') के मौजुद			कापारट कायालय- सा-डक इनावशन पाक 34, वा/1, पंचवटा, पापाण, पुण — 47700% विज्ञापन संख्या-CORP/GR.A/04/2020 - निदेशक (मासंवि)			
ता है कि	मूल शेयर प्रमाणप	नत्र (जिसव	ज विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए	र हे / नहीं				
			ोयरधारकों से इस संबंध में 5) के एवज में बुप्लीकेट शेयर			प्रारूप संख्या आईंएनसी-26			
ल संबर ती है:	লাগণন তেলাকার ন	gea es 2) क एकन व दुर्पाकट समर	348943 MI	4253 40	[कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]			
]	<u> शेवरधारकों</u>	अंकित	डिसटिन्कटिव	प्रमाणपत्र	शेयरों की	कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन केंद्रीय सरकार/क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष			
वो नं.	का नाम	मूल्य	नं,	संख्या	संख्या	कंद्राय सरकार/ वात्राय निदशक उत्तरा क्षत्र, नइ दिल्ला क समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के			
31128	शैलेंद्र वर्मा	雨,2/-	44695846 - 44696475	508082	630	नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में			
		1 1 2 2 2 2 2 2		A CONTRACTOR OF A CONTRACT					
	रेनू वर्मा					और			
व्यक्ति व	रेनू वर्मा 1 अगर कंपनी द्वारा		ोयर प्रमाणपत्र जारी करने से अ			और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी			
व्यक्ति व की तारीख	रेनू वर्मा ो अगर कंपनी द्वारा से 7 दिनों के भीर	तर लिस्बित	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉर	मेंट' को प्रस्तुत	। करते हुए	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में,			
व्यक्ति व की तारीख पंजीकृत	रेनू वर्मा 1 अगर कंपनी द्वार 1 से 7 दिनों के भीर कार्यालय पर या ई	ार लिखित - मेल sec		मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com	। करते हुए । पर भैजें।	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी			
व्यक्ति व की तारीख पंजीकृत	रेनू वर्मा 1 अगर कंपनी द्वार 1 से 7 दिनों के भीर कार्यालय पर या ई	ार लिखित - मेल sec	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने	मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com	। करते हुए 1 पर भेजें। 1गाह किया	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत			
व्यक्ति व की तारीख पंजीकृत जनता के	रेनू वर्मा जगर कंपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व	ार लिखित - मेल sec	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने	पॉट'को प्रस्तुत ocorp.com केखिलाफ आ ो मोटोकॉर्प	। करते हुए । पर भेजें। गगह किया लिमिटेड इस्ता./-	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार			
व्यक्ति व की तारीख पंजीकृत जनता के नई दिर	रेनू वर्मा जगर कंपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कंपर इ स्वी	ार लिखित - मेल sec	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने कृते हीर	ध्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ो मोटोकॉर्प नीर	। करते हुए । पर भेजें। गाह किया लिमिटेड इस्ता./- जा शर्मा	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत			
व्यक्ति व की तारीख पंजीकृत जनता के नई दिर	रेनू वर्मा जगर कंपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व	ार लिखित - मेल sec	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने	ध्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ो मोटोकॉर्प नीर	। करते हुए । पर भेजें। गाह किया लिमिटेड इस्ता./- जा शर्मा	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरवाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रोकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प			
व्यक्ति व की तारीफ पंजीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपत्र र	रेनू वर्मा ो अगर कपनी द्वारा से ? दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व सी 2/2020 t. आईएनसी-2	तर लिखित -मेल sec क्लोखित शे 6	में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने कृते हीर कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रपत्र सं.	ध्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प भीर अनुपालन अ आईएनसी-2	करते हुए. 1 पर पेंजें। गाह किया लिमिटेड हस्ता./- जा शर्मा नधिकारी	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल			
व्यक्ति व की तारीफ पंजीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपत्र र निगमन) 1	रेनू वर्मा ते अगर कंपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व ली 2/2020	तर लिखित -मेल sec क्लोखित शे 6	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेग्नी सचिव एवं मुख्य प्रपत्र सं. [कंपनी (निगमअ) नियम	रमेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ नी मोटोकॉर्प नीर अनुपालन अ आईएनसी-2 बाबली, 2014 के 1 बालन में]	त करते हुए. 1 पर पेंजें। गगह किया लिमिटेड हस्ता./- जा शर्मा रधिकारी नियम 30 के	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का			
व्यक्ति व भंजीकृत पंजीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपन्न र निगमन) 1 सरे राज्य मं	रेनू वर्मा ो अगर कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्ती 2/2020 (. आईएनसी-2 भयमालसे, 2014 के अनुपालन में) कम्पनी के पंजिक्ता व	ार लिम्बित - मेल sec क्लोखित शे 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने कृते हीर कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपन्न सं. [कंपनी (नियमन) नियम अनु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निर्देश	मंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ मोटोकॉर्प भोटोकॉर्प अनुपालन अ आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के ॥वली, 2014 के गलन में] क, उत्तरी क्षेत्र, बी	त करते हुए. 1 पर पेंजें। गगह किया लिमिटेड हस्ता. /- जा शर्मा राधिकारी 1-2 विंग, 2रा	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को			
व्यक्ति व भंजीकृत पंजीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपन्न र निगमन) 1 सरे राज्य मं	रेनू वर्मा रे अगर कपनी दाग कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर क ल्ली 2/2020 . आईएनसी-2 मयमबली, 2014 के जि	ार लिम्बित - मेल sec क्लोखित शे 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉर retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करे ही र कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपन्न सं. [कंपनी (निगमन) नियम अनु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निर्देश तल, पर्यावरण भवन, सी	मंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ मोटोकॉर्प भोटोकॉर्प अनुपालन अ आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के ॥वली, 2014 के गलन में] क, उत्तरी क्षेत्र, बी	त करते हुए. 1 पर पेंजें। गगह किया लिमिटेड हस्ता. /- जा शर्मा राधिकारी 1-2 विंग, 2रा	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपेरेट			
व्यक्ति व कौ तारीख पंजीकृत जनता के नाई दिर 15/1 प्रिपत्र र निगमन) 1 सरे राज्य म र तिये सम रकार, क्षेत्र	रेनू वर्मा जगर कपनी द्वारा कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 1. आईएनसी-2 भयमावली, 2014 के जि अनुपालन में] कम्पनी के पंजीकृत । यार पत्र में प्रकाशित व विवागन या निरेशक, उत्तरी क्षेत्र	ार लिम्बित - मेल sec क्लोखित शे क्लोखित शे 6 ने 4म 30 के कार्यालय के करने के लिये के समक्ष	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉर retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेगी सचिव एवं मुख्य प्रिपत्र सं. [कंपनी (निगमन) नियम केन्द्र सरकारश्वेत्रीय निरेश तल, पर्यावरण भवन, सी 11000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं	ध्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ नी मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प अनुपालन अ आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के आईएनसी-3 आईएनसी-2 ॥वली, 3 भी में अनुपालन अ आईएनसी-2	। करते हुए । पर पेंचें। । पाह किया लिमिटेड हस्ता./ - जा रामां नधिकारी निथम 30 के ते-2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की घारा	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पपेटेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -			
व्यक्ति व को तारी क पंजीकृत जनता के नई दिर : 15/1 प्रपन्न र : तिगमन) 1 सरे राज्य म क लिये सम परकार, क्षेत्र नियम, 201	रेनू वर्मा ो उसर कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 (. आईएनसी-2) स्वमाप्त अन्प्रपल में] कम्पनी के पंजीकृत व पत्रियक, उस्ती क्षेत्र व विराफ, उस्ती क्षेत्र क वी धारा 13 के उप-	ार लिम्बित - मेल sec क्लोखित शे क्लोखित शे 6 नेथम 30 के कार्यालय के करने के लिये के समक्ष थारा (4) तथ	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेग सचिव एवं मुख्य कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपन (निगमन) नियम केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वे 13 (4) तथा कंपनी (निग 2016) पर के प्राण्ने में	ध्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ नी मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प अनुपालन अ आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के आईएनसी-2 ॥वली, 2014 के आईएनसी-3 आईएनसी-2 ॥वली, 3 भी में अनुपालन अ आईएनसी-2	। करते हुए । पर पेंचें। । पाह किया लिमिटेड हस्ता./ - जा रामां नधिकारी निथम 30 के ते-2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की घारा	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पपेरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक			
व्यक्ति व कौ तारी रू पंजीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपन्न र निगमन) 1 प्रपन्न र निगमन) 1 प्रपन्न र तिगमन) 1 प्रपन्न र सरे राज्य म रकार, क्षेत्र नियम, 201 मिन) निय	रेनू वर्मा जगर कपनी द्वारा कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 1. आईएनसी-2 भयमावली, 2014 के जि अनुपालन में] कम्पनी के पंजीकृत । यार पत्र में प्रकाशित व विवागन या निरेशक, उत्तरी क्षेत्र	ार लिम्बित - मेल sec क्लोखित शे क्लोखित शे 6 नेथम 30 के कार्यालय के करने के लिये के समक्ष थारा (4) तथ	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेग्री सचिव एवं मुख्य प्रियत्र सं. [कंपनी (निगमन) नियम केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निरंश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में	धमंद' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ नी मोटोकॉर्प आनुपालन अ आईएनसी-2 (बालन में) क, उत्तरी क्षेत्र, बी जीओ कॉप्टलैक्स, केपनी अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा	। करते हुए । पर पेंचें। । पाह किया लिमिटेड हस्ता./ - जा रामां नधिकारी निथम 30 के ते-2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की घारा	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय प्रे पर भी भेजेगा।			
व्यक्ति व वी तारीक्ष पंजीकृत जनता के नई दिस् 15/1 प्रपत्र र नियम-) प्रियत्र र र तिये सम यकार, क्षेत्र नियम, 201 मामन) निय	रेनू वर्मा किंग कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्ती 2/2020 . आईएनसी–2 वेप्समले प्रे प्रकारित व विवागन य निदेशक, उत्तरी क्षेत्र क्रमने प्रकारित व विवागन य निदेशक, उत्तरी क्षेत्र क्रमाले में तया	तर लिखित रो -मेल sec क्लोखित रो कि विष 30 के कार्यालय के कराने के लिये के समश्च वारा (4) तथ न 30 के उप-	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉर retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेन होर करेपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपन्न सी. [कंपनी (नियमन) नियम अनु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निर्यम, तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी 30 (5) (ए) के मामले में मा नीओ साथकर सिस्टम्स	मेंट' को प्रस्तुत occorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प नी मोटोकॉर्प नी मोटोकॉर्प नी मोटोकॉर्प अनुपालन अं] खाडएं ग् स्ट्रा आईए न्सी-2 वावली, 2014 के 1 नाएल में] क, उत्तरी क्षेत्र, वी जीओ कॉप्प्लैक्स, 93 के समक्ष फ्रंपनी अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा प्राई नेट लिमि	। करते हुए । पर भेजें। ।गाह किस्सा लिमिटेड इस्ता./- जा शर्मा नधिकारी 1-2 विंग. 2रा नई दिल्ली- 2013 की घास 2014 के नियम ध्रेटेड (CIN-	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवंशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हिंत प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉप्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या पुरुद कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय प्रेत पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता:			
व्यक्ति व क्वी तारी प्रवीकृत जनता के नई दिर : 15/1 प्रपत्र र त शिने सम रकार, क्षेत्र नेयम, 201 नेयम, 201 नेयम, 201 नेयम, नेय के क्लॉज	रेनू वर्मा ां उसार कपनी द्वारा से 1 दिनों के भीत कार्यालय पर या र्ड सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 (. आइंएनसी-2 प्रियालय में] कममती के पंजीकृत । वार पत्र में प्रकाशित = विवागन या तिरेक, उत्तरी विवा तथा ए) के मामले में तथा तथा, प्रार्डवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन,	तर लिखित - मेल sec स्लेखित शे 	में कंपनी के 'सचिवीय दियां retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपत्र सं. [कंपनी (निगनन) नियम केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निरंश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिवियम, 2013, वं 30(5) (ए) के मामले में नीओ सायकर सिरटम. U72200HR2009PTC	रमेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ो मोटोकॉर्प आइंएनसी-2 (बली, 2014 के बलले, 2014 के बलले में) कर, उत्तरी क्षेत्र, ब जीओ कॉप्प्लैक्स, 93 के समक्ष कंपनी अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा मानले में प्राईवेट लिमि 038670) जिन	। करते हुए । पर पेंजें। ।गाह किया लिपिटंड हस्ता./- जा रागां तथिय उप के ते-2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की चारा 2014 के नियम 2013 की चारा 2014 के नियम देंडे (CIN- सका पंजीकृत	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत तार्यालय प्रेत र भर भो से पैता भा ने जे प्रात्नकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया			
व्यक्ति व वी तारी ह जनता के जनता के न इं दि /1 प्रिपत्र र निगम-) नियम, 201 सरे राज्य मं ने रिवे सम रकार, क्षेत्र के क्लॉज में के क्लॉज मैं स्थित एंड	रेनू वर्मा ां अगर कपनी द्वारा से १ दियों के भीत कार्यालय पर या र्ड सदस्यों को कपर व स्प्रि 2/2020 र. आइंएनसी-2 भयमावली, 2014 के नि भयमपती के पंजीकृत व भयमपती के पंजीकृत व भयापत्र में भ्रकारित व भ्रियापत्र में भ्रकारित व भ्रियापत्र ने भ्रकारित व भ्रियापत्र ने भ्रकारित व भ्रियापत्र ने भ्रकारित व भ्रियापत्र में भ्रकारित व की धारा 13 के उप- तथा एसोंसिट्स प्राईयेट लि 6.70, रजीरी गार्डन, ले में	तर लिखित - मेल sec मेल sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेग सचिव एवं मुख्य प्रिथनी सचिव एवं मुख्य प्रिथनी (निगमन) नियम अनु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेश तल, पर्यावरण भवन, ग्री 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में नीओ सायकर सिस्टम्स प72200HR2009PTC कार्यात्थ 356, फेन-II (' इरिंगणा-122001 में है।	धमेंद ं को प्रस्तुत occorp.com के खिलाफ आ नी मोटोकॉर्प अनुपालन अ आईएनसी-2 यावली, 2014 के यावल में] क, उत्तरी क्षेत्र, बी जीओ कॉप्प्लैक्स, 93 के समक्ष फार्म अधिनेत्रम, मन) नियमावली, : तथा प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि , उद्योग कि	। करते हुए । पर पेंजें। । पर पेंजें। ।गाह किसा लिमिटेड हस्ता. - श्विकारी -2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की धारा 2014 के नियम 2013 की धारा 2014 के नियम संका पंजीकृत वेशन, गुड़गॉंव, आनेदक	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 को धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक नदिशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेच सकता है या सुपुर्द कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत कार्यालय परे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए आवेदक की लोर से			
व्यक्ति व ब्वति तारीस पंजीकृत नई दिर - 15/1 प्रायत्र र निगमन) 11 प्रायत्र र निगमन) 11 प्रायत्र र नियम, 201 प्रायत्र र ने व्यक्त क क्लॉज प्रैर ए इ क माम जनात	रेनू वर्मा कार कपनी द्वारा से 1 दिनों के कीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्ती 2/2020 (. आईएनसी-2 2/2020 (. आईएनसी-2 विवागन वार पत्र में प्रकाशित क विवागन या दिशक, उत्तरी के उप- गायली, 2014 के नियम ए) के मामले में तया प्रसिदस प्रार्डवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन,	तर लिखित - मेल sec स्लेखित शे 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉर retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेत्री सचिव एवं मुख्य प्रिपत्री सचिव एवं मुख्य प्रिपत्री सचिव एवं मुख्य प्रिपत्री सिन्मन) त्यम केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निरेश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधितियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी (निग्म 30(5) (ए) के मामले में नीओ सायकर सिरदम्स, U72200HR2009PTC कार्साणण-122001 में है। एएवद्रारा आम जनता थे	2मंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प आइंएनसी-2 विश्व प्रती क्षेत्र वी नीक्षे कॉम्लैक्स, अवईएनसी-2 वाख्त में नियमवली, : तथा मल में प्राईवेट लिमि 038670) जिन भू तल), उद्योग- को सुचित किया	। करते हुए. । पर पेंजें। । पर पेंजें। ।गाह किया लिपिटंड हस्ता./- खा रागां तथिम 30 के ते-2 विंग, 2रा नई रिल्ली- 2013 की चारा 2014 के नियम वेह (CIN- रखार, ग्वीकृत वेषार, गुव्यांक, आनेदक जाता है कि	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रोकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदिशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनों के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत कार्यालय यत्ते पर भी मेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदिक की ओर से स्थान- गडागांव में, प्रो हत्यदेविनक इंडिया प्राडवेट लिमिटेड			
व्यक्ति व बी तारीष्ट पंचीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपन्न र 7 तिवे सम रकार, क्षेत्र न तिवे सम रकार, क्षेत्र न तिवे सम रकार, क्षेत्र न तिवे सम रकार, क्षेत्र के कर्तांज प्राप्त र ह, के माम आप उत्तर प्राप्त र के मा साम उत्ति र सा दिल्ली प्राप्त के स्वा स्वा के स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा	रेनू वर्मा कार कपनी द्वारा से 1 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्ती 2/2020 (. आईएनसी–2/ प्रेय020 (. आईएनसी–2/ प्रेय030 (. आईएनसी–2/ (. आईप्रेय030) (. आईएनसी–2/ (. आईप्रेय030) (. आईप्र) (. आई	तर लिखित - मेल Sec मेल Sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेग सचिव एवं मुख्य केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में नीकी सायकर सिस्टम्स U72200HR2009PTC कार्यालय 356, फेन्न-11 एलद्रासा आम जनता द "हरियाणपा-122001 में है। एलद्रासा आम जनता ह "हरियाण राज्य" से "रा	म्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सेढलाफ आ ने सेढलाफ आ ने सेढलाफ अनुपालन के आईएनसी-2 विश्व में कि आईएनसी-2 विश्व के समक्ष के उत्तरी केत्र, वी जीओ के मंग्र्यलेय, तथा मल) नियमावली, : तथा मल जे अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा मल जे उच्चीग ति प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि	। करते हुए. । पर पेंजें। । पर पेंजें। गगह किसा हिनिमटेड हस्ता./ हिनिमटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमिटेड हस्ता./ विमेटेड हस्ता./ विमेटेड हस्ता./ विमेटेड हस्ता./ विमेटेड हस्ता./ विमेटेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ हर्षेत./ विमेटेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ हर्षेत./ विमेरेड हरतेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्षेत./ विमेरेड हर्	और मै. प्रो हबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 को धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक नदिशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेच सकता है या सुपुर्द कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत कार्यालय परे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए आवेदक की लोर से			
व्यक्ति व से बी तारीष जनता के नइं दि /1 प्रापत्र र (नगमन) नि सरे राज्य मं नियम, 201 मिसने के स्वर्णेज के क्लॉज में से माम जनता कि स्वार्थ है, के माम माम जनता का दिल्ली के लिए 0	रेनू वर्मा किया कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर त स्वी 2/2020 (. आइंएनसी-2) तथा पत्र में प्रकाशित व विकागन वार पत्र में प्रकाशित व विकागन यार पत्र में प्रकाशित व विकागन यारे पत्र में प्रकाशित व विकागन यारे पत्र में प्रकाशित व विकागन यारे पत्र में प्रकाशित व विकागन विकागन भी देवेया जाता ' से ''हरियाणा राज्य	रा लिखित - मेल Sec - मेल Sec - मेल स्वित शे 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपॉर retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपनी तिमान। नियन तल, पर्यावरण भवन, सी 13 (4) तथा कंपनी (मिगा 30(5) (ए) के मामले में मनीओ सायकर ससटरस. U72200HR2009PTC करियाणा-122001 में है। एखद्रापा आम जन्ता-1 "हरियाणा राज्य" से "रा उसके पंजीकृत कार्यालय के	मेंट' को प्रस्तुत occorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 आवली, 2014 के पालन में] क, उत्तरी क्षेत्र, वी जीओ कॉम्प्लैक्य, 03 के समक्ष फेग्नी अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा मले में प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट लिमि प्राईथेट किया प्र्ये परिवर्ति करने 1 पिटर्सम्बर, 2020	। करते हुए । पर पेंजें। । पर पेंजें। गगह किसा लिमिटेड हस्ता , – खा शर्मा रिविमटेड हस्ता , – खा शर्मा रिविकारी -2 विंग, 2श नई दिल्ली– 2013 की धारा 2014 के नियम देड (CIN- सका पंजिकृत वेहार, गुड़गॉव, आनेदक जाता है कि ात्र दिल्ली'' में के लिए कंपनी') को आयोजित	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रोकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदिशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनों के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत कार्यालय यत्ते पर भी मेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदिक की ओर से स्थान- गडागांव में, प्रो हत्यदेविनक इंडिया प्राडवेट लिमिटेड			
व्यक्ति व वी तारीष्ठ पांचीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रियत्र र गिरामन) 1 प्रियत्र र गिरामन) 1 प्रयत्र र सरे राज्य मं न्यस्त र सरे राज्य मं न्यस्त र में के ल्ला ज दिल्ली यां सा जनता ता दिल्ली यां सा जनता त दिल्ली पार्यात हि से के लिए प्रसित्स	रेनू वर्मा के उन्नार कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व रसी 2/2020 (. आइंएनसी-2) विवापन कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व विवापन प रियेक्त, उत्तरी पार्डन, तथा एसोसिदस प्राईवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन, ले में परियेक्त पार्डन, के सुरित के पुचित किरने के ति 3.12.2020 को आयीति	तर लिखित रो - मेल sec स्लेखित रो स्लेखित रो नेथम 30 के कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के तर सम्प्री यार कपनी के तर कंपनी के तर कंपनी के तर कंपनी के तर कंपनी के तर कंपनी के तर कंपनी के	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेग सचिव एवं मुख्य केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निवेश तल, पर्यावरण भवन, सी (कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) वथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में ग नी नीओ सायकर सिस्टम्स U72200HR2009PTC कार्यात्पण नव्य 'से 'स' प्रतदक्षा आम जनना व ''हरियाणा राज्य' से 'स' उ सरेक पंजीकृत कार्यालय के के संसम बनाने के लिए 0 आसायारण आम प	2मंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 आवली, 2014 के आइंएनसी-2 आवली, 2014 के आइंएनसी-2 आइंएनसी-2 आइंएनसी-2 आइंप् जिया कॉट्यलेय, भू किया में भू किया किया भू किया में भू किया किया में से सिर्वात किया ने परियतित करने 1 दिरसम्बर, 2020 रिरो प्रस्ता, रेस प्रस्ता ररावे प्रप्रता रेस प्रस्ता	। करते हुए. । पर पेंजें। । पर पेंजें। ।गाह किसा लिमिट टूड हस्ता.7 हस्ता.7 16 नियम 30 के नियम 30 के नियम 30 के नियम 30 के नियम 30 के नियम 30 के विद्य राप विद्य राप राप राप राप राप राप राप राप	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रोकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवंशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसोए पॉरेल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्च कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनों के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरंट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय प्रे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में. प्रो हत्वदेक्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निदेशक- क्षी वेंकटेश हरिहरन, डी आई एन-02980167 फार्म संख्या आइएनसी-26 [कपनीज (निगमन) नियमन, 2014 के निय 30 के अनुसरण में]			
व्यक्ति व व्यक्ति व तारीष्ट 'पंचीकृत जनता के नइ दिर 15/1 प्रपन्न र निगमन) 1 प्रपन्न र र त तिवे सम रकार, क्षेत्रं त तिवे सम रकार, क्षेत्रं त तिवे सम रकार, क्षेत्रं त तिवे सम रकार, क्षेत्रं ह, के माम सम उत्तित प्रायत्न र त दिल्ली यांत्र दिल्ली यांत्र दिल्ली यांत्र दिल्ली यांत्र कि के सिए Qरी प पारित दि नियम, 201	रेनू वर्मा जियार कपनी द्वारा से 1 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 (. आईएनसी–2/ प्रियेणकृत कार्या के प्रेयोकृत 1 विज्ञागन या रिश्रेम, उत्तरी क्षेत्र कार्या के प्रेयोकृत 1 वारा पत्र में प्रकाशित में विज्ञागन या निरेशक, उत्तरी के उप- प्रेयोगिरद प्राइवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन, ले में न्या प्रादेवेट किया जाता। ' से ''हरियाणा राज्य परियर्तित करने के हि 8.12.2020 को आर्गी १ष प्रस्ताय के अनुवि	तर लिखित रो -मेल Sec स्लेखित रो स्लेखित रो 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेत होर कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रपन्न सं. [कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रपन्न सं. [कंपनी अधितियम, 2013, वं वेन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधितियम, 2013, वं 13 (4) तथा कंपनी तिंगग 30(5) (ए) के मामले में मा नीओ साथकर सिस्टम्स U72200HR2009PTC कावॉल्य 356, फेन्न-II (एतद्रारा आम कनता व "हरियाणा.122001 में है। एतद्रारा आम कनता व "हरियाणा आनससमा में पा के सिर्थ कंपन्नित कार्यालय के सारेव्हा आफ	रमेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प भी मोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 विस्तु रुपल्सी 2 विस्तु रुपल्सी 2 विस्तु रेपल प्राईवेट लिमि प्राईवेट लिमि क्रिया के प्राईवेट प्राह्म के स्वित्त करने 1 दिसम्बर, 2020	। करते हुए. । पर पेंजें। । पर पेंजें। । पाइ किसा लिमिटेड हस्ता./ जिमिटेड हस्ता./ जा शर्मा रधिकारी -2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की थारा 2014 के नियम थेड (CIN- स्वका पंजीकृत के लिए कंपनी) को आयोजित व के अनुसार स्वे अयगेति	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रोकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवंशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्च कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनों के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्र कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कपनी को उसके निम्नलिखित जिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव पे. प्रो हत्वरिक्त झा देसियरा, इरियरा प्राइवेट लिमिटेड निदेशक- श्री वेंकटेश हरिहरन, डी आई एन-02980167 फार्म संख्या आइएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकला म मंत्रालय, नई दिल्ली			
व्यक्ति व क्षेत्री तारीस प्राचीकृत जनती के नई दिर 15/1 प्रापत र तिगमन) 1 प्रापत र रकार, क्षेत्र से राज्य मं नियम, 201 मने विस्त प्रे से प्रा प्रार्थलय जे के लिए 0 प्राप्त र के लिए र प्राप्त र के लिए र के लिए र प्राप्त र के लिए र जे के लिए जे के लिए र जे की लिए जे के लिए र जे की लिए र जे के लिए जे के लिए र जे जे के लिए र जे जे के लिए र जे के लिए र जे के लिए र जे के लिए र जे जे के लिए र जे के लिए र जे जे के लिए र जे के लिए र जे जे के लिए र जे जे ज	रेनू वर्मा किंग्रे कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या डे सदस्यों को कपर व प्रे स्पर्स्यों को कपर व प्रे स्पर्ध्या को कपर व प्रे स्पर्ध्या को कपर व प्रे स्पर्ध्या की के किंग्रे क्रियनी के पंजीकृत व विवापन पर्वा पत्र में प्रकाशित न विवापन यार पत्र में प्रकाशित न विवापन यार पत्र में प्रकाशित न विवापन प्रे सिंग्रेस् प्राईवेट लिं 6/70, रसी गार्डन, तथा एसीसिट्स प्राईवेट लिं 6/70, रसी गार्डन, की प्रादा के अनुरा परियाति करने के हि श12,2020 की आसीं शेष प्रस्ताव के अनुरा एशन के परिवर्तन की अस्ता यावेदन करने का प्रस्ता यावल के इस प्रस्तावि	तर लिखित रो -मेल Sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेग सचिव एवं मुख्य कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपत्र सं. [कंपनी (निगमन) नियम अन्य कंपनी अधिनियम, 2013, वं तल, पर्यावरण भवन, यी 113 (4) वया कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में 130(5) (ए) के मामले में गी वो सा सायकर सिस्टम्स U72200HR2009PTC कार्यालय 356, फेज-II (' हरियाणा राज्य' से ''या उसके पंजीकृत कार्यालय के सक्षम बनाने के दिए 0 आसायारण आमासमा में	प्मेंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सेविलाफ आ ने सेविलाफ आ ने सोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 आइंएनसी-2 आइंएनसी-2 वाखन में] बिला में प्राई वेट लिमि प्राई वेट लिमि	 करते हुए. पर पेंजें। पर पेंजें। गगह किसा किसिटंड हस्ता, / - कि स्व का रागां कि सि के सि का रागां कि सि के के सा के सि क	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ''हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हिंत प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरंट मामलों के मंत्रालय, बी -2 थिंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी, मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में प्राइतेह आ यों केंक्रे हा हरिंग्रन, डी आई एन-02980167 फार्म संख्या आइएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकला म मतालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनेयम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन,			
व्यक्ति व व्यक्ति व तारीष पार्वकित जनता के न ई दिर 15/1 प्रिपत्र र र निर्व सम न्ना के तरम, क्षेत्र ने सम रफतर, क्षेत्र ने सम माम जनता क देल्ली पारित रि पार्वकित क के लिए पार्वकित क कि ने कि ने के लिए पार्वकित क के लिए पार्वकित क के लिए पार्वकित क के लिप पार्वकित क के लिप पार्वकित क के लिप पार्वकित क के लिप पार्वकित क के लिप पार्वकित क के लिप क के के लिप क के के लिप क के लिप क के	रेनू वर्मा के उन्नार कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व प्रि. 2/2020 (. आईएनसी-2) विवापन कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व कम्पनी के पंजीकृत व विवापन यार पत्र में प्रकाशित व्य विवापन प निरेष्ठफ, उत्तरी गार्डन, तथा एसोसिर्ट्स प्राईवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन, ले में परिदेश प्राइवेट लि 6/70, रजीरी गार्डन, ले में परियोग राज्य परियेकि क्या जाता ' से ''हरियाणा राज्य परियेकि क्या के अनुर एशन के परिवर्तन की के लि प्रायेलय के इस प्रसाधि हेन प्रभावित होता हो,	तर लिखित रो -मेल Sec स्लेखित रो स्लेखित रो नेथम 30 के कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के तर्म समक्ष थारा (4) तथ मेटेड जिसक नई दिल्ली- -आवेदक दि कि ''राष्ट्रा रे के उप- मेटेड जिसक नई दिल्ली- -आवेदक है कि ''राष्ट्रा रे के उप- पे के उप- पे के उप- पे के उप- पे के लिप पे के लिप पे के लिप पे के लिप पे के लिप पे के लिप मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- के लिप मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- ने के लिप मेटेड जिसक ने के उप- ने के लिप मेटेड जिसक ने के उप- ने के उप- ने के उप- ने के जिप मेटेड जिसक ने के उप- ने के जिप मेटेड जिसक ने के उप- ने के जिप मेटेड जिसक ने के उप- मेटेड जिसक ने के उप- ने के जिप मे के जिप- ने के लिप- मे के लिप- में के लिप- में के लिप- में के लिप- में के लिप- में के लिप- में के लिप- मेरे के लिप- मेड के लिप- में के लिप- मेरे के लिप- मेड के लिप- मेरे के लिप- मेरे के लिप- मेरे के लिप- ने	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करते करेत होर कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपत्र सं. [कंपनी (निगमन) निवम अपु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेश तल, पर्यावरण मवन, सी 10000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) वथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में 13 (4) वथा कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में गा वादिय य36, फेज-II (7 कार्यालय 436, फेज-II (7 कार्यालय निक्त कार्यालय कं के लिए कंपनी अधिनियम, यह कंपनी केन्द्र सरकार/के आवेदन करने का प्रताव व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय	मंदर को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सिलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सेखलाफ आ ने सेखलाफ आ जाइंएनसी-2 आवंध्रियम आवंध्रेयम आवं	 करते हुए. पर पेंजों। पर पेंजों। गगह किस्सा लिमिटेड हस्ता. हस्ता. विनिस्टेड हस्ता. विनिस्टेड स्वा. विनिये अ के विन में अ के विन में अ के वित्यम पंनीकृत के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार को अनुसार के अतगंत नी के अंत्र पासितंक ये 	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय '' हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति वा तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्रे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में स्थान्देश्य हरिंडरन, डी आई एन-02980167 प्रार्य संख्या आइंएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकलाप मंत्रालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-शारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के वलॉज (ए) के मातले मं			
व्यक्ति व व्यक्ति व तारीष्ट 'पंडीकृत जनता के नई दिर 15/11 प्रपत्र र निगमन) 1 प्रपत्र र ते तिथे सम सर राज्य मं ते तिथे सम सर राज्य सं है, के माम माम जनता यांत्य के स्वर्ताज यांत्य के सिए (2) प्राप्त र के प्राप्त यांत्य के प्राप्त यांत्य के पास पंडी के पास	रेनू वर्मा किंग्रे कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या डे सदस्यों को कपर व प्रे स्पर्स्यों को कपर व प्रे स्पर्ध्या को कपर व प्रे स्पर्ध्या को कपर व प्रे स्पर्ध्या की के किंग्रे क्रियनी के पंजीकृत व विवापन पर्वा पत्र में प्रकाशित न विवापन यार पत्र में प्रकाशित न विवापन यार पत्र में प्रकाशित न विवापन प्रे सिंग्रेस् प्राईवेट लिं 6/70, रसी गार्डन, तथा एसीसिट्स प्राईवेट लिं 6/70, रसी गार्डन, की प्रादा के अनुरा परियाति करने के हि श12,2020 की आसीं शेष प्रस्ताव के अनुरा एशन के परिवर्तन की अस्ता यावेदन करने का प्रस्ता यावल के इस प्रस्तावि	तर लिखित रो - मेल Sec मेल Sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेत होर कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रियंत्रे सिंब एवं मुख्य प्रियंत्रे सिंब एवं मुख्य प्रियंत्रे सिंब एवं मुख्य प्रियंत्रे सिंब एवं मुख्य प्रेक्ट सरकारक्षेत्रीय निरंश तल, पर्यावरण भवन, सी 10000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं तल, पर्यावरण भवन, सी 10000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं प्रेयंत्र सायकर सिंदर- स्र 13 (4) वधा कंपनी (निग्ग 30(5) (ए) के मामले में 13 (4) वधा कंपनी (निग्ग 30(5) (ए) के मामले में 14 प्रित्याणा राज्य' से 'श 30 स्तेयं पंत्रीकृत कार्यालय कंपनी के मंगरिक आर्फ प्र कंपनी के मंगरिक कार्फ प्र कंपनी के संगत्रिक कार्यात	मंदर को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सेविलाफ आ ने सेविलाफ आ ने सोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 वालने में पालने में प्राईवेट लिमि 038670) कि म्राईवेट लिमि 038670) कि म्राइवेट लिमि 038770 कि म्राइवेट लिमि 038770 कि म्राइ प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग के प्रावर्ग प्रावर्ग के प्रावर्ग	 करते हुए. पर पेंजों पर पेंजों पर पेंजों पर पेंजों पर पेंजों पाह किसा किसिटेड हस्ता,/- (6 नेथम 30 के नेथम 30 के नेथ 40 के नेथ के ने के ने के ने के ने प्रिके परि 13 के के प्रत्योजित 13 के के प्रत्या ने प्रा 13 के के प्रत्य के पास वे प्रस्तीए-11 शिकायत प्रपत्र 	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय '' हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्रे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में स्थान्द श्री वेंकटेश हरिहरन, डी आई एन-02980167 प्रान संख्या आइएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकलाप मंत्रालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–वियम (4) एव कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियन (5) के वलॉज (ए) के मानते मं एवं यूजकिवी इन्फोत्लैबस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉव			
व्यक्ति व को तारी से प्रवीकृत क को तारी से प्रवीकृत जनता के नई दिर 15/1 प्रपत्र र तियम, 201 सरे राज्य मं तियम, 201 सरे राज्य मं तियम, 201 सरे राज्य मं तियम, 201 सं के लिए 0 पारित ति फ एसीस ने के लिए 0 पारित ति फ एस राज प्रयालय के लिए 0 पारित ति फ एस राज प्रयालय के लिए 0 पारित ति के पार प्रयालय के लिए 1 पार प्रयालय के लिए 0 पारित ति के पार प्रयालय के लिए 0 पारित ति के पार पारित के पार प्रयालय के लिए 1 पार पार पार पार पार पार पार पार पार पार	रेनू वर्मा कि उनम कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 (ता लिखित - मेल sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेग सचिव एवं मुख्य कंपनी सचिव एवं मुख्य प्रियत्र सं. [कंपनी (निगमन) नियम अन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निरंश तल, पर्यावरण भवन, यी 1000 कंपनी अधिनियम, 2013, वं 13 (4) वया कंपनी (निग 30(5) (ए) के मामले में गोओ साथकर सिस्टम्स U72200HR2009PTC कार्यात्त्य 356, फेज-II (' कार्यात्त्य 356, फेज-II (' कार्यात्त्य 356, फेज-II (' कार्यात्त्य 366, फेज-II (' कार्यात्त्य 374, पे''या उसके पंजीकृत कार्यात्य के सक्षम बनाने के लिए 0 आसायार आज मलता 1 यह किस्मी व्यक्ति का हित मं पेंदल स्वर्थन का हित	मिंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने सिलाफ आ ने सेटाकार्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 आवसि, 2014 के प्रादेएनसी-2 आवसि, 2014 के आं के समक्ष करनी अविनियम, प्रान में] के समक्ष कंपनी अधिनियम, प्रान में] अ के समक्ष कंपनी अधिनियम, प्रान में आ के समक्ष कंपनी अधिनियम, प्रान के स्थित किया प्रति विशेष प्रस्ता रित विशेष प्रस्ता रित विशेष प्रस्ता रित विशेष प्रस्ता रेश प्रयातित होता हो, गा भेर तीवेशक नीचे वर्णित पंजीकू	। करते हुए. । पर पेंजें। । पर पेंजें। गगह किसा हिनिदेड हस्ता. / हस्ता. / हस्ता. / 1 -2 विंग. ट्रा नई दिल्ली- 2013 की यारा 2013 की यारा 2013 की यारा 2014 के नियम पेंड (CIN- त्वर दिल्ली- 2013 की यारा 2014 के नियम प्रतादक जतात है कि ज जिल्म के अरुप्रा व के अनुरास रात के अनुरास व के अनुरास व के आयोजित व के अनुरास रात के अत्रात्त के आरोदन्ती	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय '' हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्रे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में प्राह दिरान, डी व्याद्री हत्या प्राइवेट लिमिटेड निदेशक- श्री वेंकटेश हरिहरन, डी आई एन-02980167 फार्म संख्या आईएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकलाप मंत्रालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) एव कम्पनीज (निगमन) नियनन, 2014 के नियम 30 के उप–नियन (5) के वलॉज (ए) के मासते में एवं यूजकिवी इन्फोलैबस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक बी1/डी4, मोहन कोआपरेटीव इन्डट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110044			
व्यक्ति व से कि तारी से पर्वक्रित तारी से पर्वक्रित जनता के जनता के जनता के जनता के जनता के जनता के तारी से पर्वक्रित जनता के तारी से परिवर्ग के सिंद से परकार, क्षेत्री वेयम, 201 मन) नियय के कर्लाज मैं से राज्य मं के कर्लाज के लिएव जी के लिएव से परिवर्ग के के लिएव से जियम, 201 मन) नियय के के लिएव जी के के लिएव जी के के लिएव जी का उत्त पा सा जनता जा के के लिएव जी का उत्त पा सा जाता ता जा	रेनू वर्मा रे अगर कपनी द्वारा से १ दियां के आँत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व स्वी 2/2020 र. आइंएनसी-2 प्रथायलय के जाए क विवागन या रिश्व में प्रकाशित विवागन या रिश्व में प्रकाशित विवागन या रिश्व में प्रकाशित के याया 13 के उप- विवागन या रिश्व में प्रकाशित के प्राया 13 के उप- विवागन या रिश्व में प्रकाशित के प्राया 13 के उप- परियंतित करा ही गार्डन, की सुचित किया जाता परियंतित कराने के हि 3.12.2020 को आयोंगि शेष प्रस्ताव के अनुन एशन के प्ररिवर्गन को प्रायंतनित करने के प्रि	तर लिस्बित शे - मेल sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करे पत्री सचिव एवं मुख्य प्रिपत्री सचिव एवं मुख्य केन्द्र सरकारक्षेत्रीय निरेश तल, पर्यावरण भवन, सी 1000 कंपनी अधिवियम, 2013, वं 113 (4) तथा कंपनी (निग्ग 30(5) (ए) के मामले में 113 (4) तथा कंपनी (निग्ग 30(5) (ए) के मामले में प्रवर्त्तया अम जनता दे प्रतियाणा राज्य' से 'श उसके पंजीकृत कार्यालय के के ससा बनाने के लिए 0 असाधारण आम क्याता दे के संपत्री कंपनी के स्वरित्त सरकारको आवेदन करने का प्रस्ताव के अवोदन करने का प्रस्ताव के पात्रीक संजीकृत कार्याल कंपनी के पंजीकृत कार्याल	2मंट' को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प आनुपालन अ आइंएनसी-2 बिली, 2014 के। बाल्ली, 2014 के। बाल्ली, 2014 के। बाल्ली, 2014 के। बाल्ली, 2014 के। बाल्ली, 2014 के। बाल्ली, ये, ये, ये, बार्था के, ये, ये, ये, उबे समक्ष केपनी अधिनियम, पत्र) के समक्ष के के, विधिनेयम, उबित किया प्राई बेट लिमि 038670) जिंग भू तल), उद्योग ने को परिवर्तित करने के। परियम्बर, 2020 रित विशेष प्रस्ता रिया विराय, 2020 रित विशेष प्रस्ता रिया विराय, 2020 रित विशेष प्रस्ता तथा निरंगल, उन्नी के परिवरित करने वे। यिरम्म्बर, 2020 रित विशेष प्रस्ता तथा ने स्वर्गत के साथ इ दिनों के सीतर	 करते हुए. घर घेंत्रों। घर घेंत्रों। माह किस्सा किसिटंड हस्ता,/- किसिटंड हस्ता,/- विनियम 30 के ो-2 विंग, 2रा नई रिल्ली- 2013 की चारा 2013 की चारा 2014 के नियम 2013 की चारा 2014 के नियम वहे (CIN- तका रॉजीकृत तका रॉजीकृत तका रै कि ति देखते , गुराते, आनेदक आते हका प्रकेपनी को आयोजित वही परिवर्तन ने के अनुसार (वर्तन की पुष्टि 13 के अंतर्गत तो के अंतर्गत तो के प्रकिप्त प्रेश के पास वत गरिवर्तन ने वे एमसपेए-11 श्वित्र के पास वत गरिवर्तन ने वे एमसपेए-11 श्वित्र के आप वित की आप 	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय '' हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्रे पर भी मेंगेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनॉक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में. प्रो हर्वटरन, डी आई एन-02980167 प्रार्य संख्या आइंएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकलाप मंत्रालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–शारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियनन, 2014 के नियम 30 के उप–नियन (5) के वलॉज ए) के मासते मं एवं यूजकिवी इन्फोलैबस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉव बी1/डी4, मोहन कोआपरेटीव इन्डट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110044 के मानते में			
व्यक्ति व व जी तारीख जनता के नई दिर 15/11 प्रपत्र र नेगमन) 1 प्रपत्र र ते राज्य मं तिर्वाये सम स्रे राज्य मं दिलये के साम नगमन) निय के क्लॉज के स्वार्थ स्वा के प्रसासि स्रे प्रदर्श के पास जीकृत क ववित्र को के पास जीकृत क के पास जीकृत क के पास जीकि से आपति के उस तातिथि से प्रारा समीपि	रेनू वर्मा के उसर कपनी द्वारा से 7 दिनों के भीत कार्यालय पर या ई सदस्यों को कपर व प्रि. आईएनसी-2 2/2020 (. आईएनसी-2 2/2020 (. आईएनसी-2 44419(स), 2014 के कम्मनी के पंजीकृत व कम्मनी के पंजीकृत व कम्मनी के पंजीकृत व कम्मनी के पंजीकृत व कम्मने के पंजीकृत व विकापन या पत्र में प्रकाशित व विकापन या पत्र में प्रकाशित व विकापन प्रतिरक्षत, उत्तरी गार्डन, ले में परियाण, राज्ये परियाण, राज्य परियति करने के सिंग परियति करने के सिंग परियति करने के अंत प्रायतिव के अनुप् एशन के परिवर्तन की 5 भी परितयि होता हो, 3000 को आयों हेत प्रभावित के अनुप्	ता लिखित शे - मेल sec 	में कंपनी के 'सचिवीय दिपांट retarialho@heromot यर प्रमाण पत्रों में निवेश करने करेती सचिव एवं मुख्य प्रिपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपनी सचिव एवं मुख्य प्रिपनी (निगनन) नियम अनु केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निरेश तल, पर्यावरण अवन, सी 10000 कंपनी अधिवियम, 2013, वं तल, पर्यावरण अवन, सी 110000 कंपनी अधिवियम, 2013, वं उं (३) (१) के मामले में 10000 कंपनी अधिवियम, 2013, वं कंपनी अधिवियम, 2013, वं तल, पर्यावरण अवन तरे 113 (४) तथा कंपनी (निग 30(5) (१) के मामले में 113 (४) तथा कंपनी (निग 30(5) (१) के मामले में 114 एवत्दारा आम जनता दे 125 एवत्दाणा राज्य' से 'श 30 स्तं पंजीकृत कार्यालय के साधारण आमसभा में प कंपनी के मंसरिक वार्जिक कार्यात वर्ष त्रियों के नजीकृत कार्याल कंपनी के राजीकृत कार्यालय कंपनी के त्रीकृत कार्यालय कंपनी के मंसरिक वर्जीक कार्यात वर्ष त्रियों व्यवित्व क्रिंत में 114 प्रतंह कंपनी के त्रजीकृत कार्याल कंपनी के त्रीकृत कार्याल कंपनी के त्रीकृत कार्यालय के कार्या व्यवित्व कर्य अवया उत्सक सं आयेदक कंपनी के तर्जा प्रकारात की तिथि से चौदर प्रकृती तथा आपनी के का	मंदर को प्रस्तुत ocorp.com के खिलाफ आ के खिलाफ आ ने मोटोकॉर्प अनुपालन अ ने मोटोकॉर्प अनुपालन अ आइंएनसी-2 आइंट्रे र्स् (पालन में] बिल्ता के कॉम्टलैक्स, किंपनी अधिनियम, मन) नियमावली, : तथा प्राई येटे लिमि प्राई येटे लिमि प्राह ये कि प्राई येटे लिमि प्राई येटे लिमि	 करते हुए. पर पेंजें। पर पेंजें। पर पेंजें। पर पेंजें। पर पेंजें। पाह किल्सा हितमिर्टड इस्ता, /- हितमर्टड का शा शर्मा ति भय 30 के े2 विंग, 2रा नई दिल्ली- 2013 की घारा 2013 की घारा 2014 के नियम 2013 की घारा 2014 के नियम 2013 की घारा 2014 के नियम २०२२ के अगरोतित व वे आयोजित व वे प्रस्तीप-21 रिकायत प्रभा देत की प्रारंग ति से अं के पास तक ग्रायलिन को प्रुपेट 13 के अगरोतिन को प्रेप्रसीप-21 रिकायत प्रभा त्र का अपने हित की अपने हित करते हुए एक 	और मै. प्रो इबटेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पी. नं., 213-बी, 4 आइ एम टी मानेसर गुड़गांव गुड़गांव, हरयाणा 122051 इंडिया। पर स्थित है, के मामले में, आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय '' हरयाणा'' राज्य से ''तमिल नाडु'' राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शनिवार दिनांक 05 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में परित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हैं, तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्लि प्रदेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनो के भीतर '' क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003'' पते पर को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्ट कर सकते है और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्रे पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता: पी. नं., 213-बीं, 4 आइ एम टी, मानेसर गुडुगांव गुडुगांव, हरयाणा 122051 इंडिया दिनांक- 16 दिसंबर, 2020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान- गुडुगांव में प्राह दिरान, डी व्याद्री हत्या प्राइवेट लिमिटेड निदेशक- श्री वेंकटेश हरिहरन, डी आई एन-02980167 फार्म संख्या आईएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उतरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्यकलाप मंत्रालय, नई दिल्ली कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) एव कम्पनीज (निगमन) नियनन, 2014 के नियम 30 के उप–नियन (5) के वलॉज (ए) के मासते में एवं यूजकिवी इन्फोलैबस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक बी1/डी4, मोहन कोआपरेटीव इन्डट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110044			